


जैन समाजात प्रचंड खपाचे व लोकप्रिय मासिक



# जैन जागृति

(Since 1969)

www.jainjagruti.in

६२ ऋतुराज सोसायटी, पुणे-सातारा रोड, भापकर पेट्रोल पंपा  
समोर, सिटी प्राईडच्या पुढची लेन, पुणे ४११०३७.

मो. : ८२६२०५६४८०, ✆ : ०२० - २४२९५५८३

मोबाईल : संजय ९८२२०८६९९७, सुनंदा ९४२३५६२९९१

संपादक व प्रकाशक : संजय के. चोरडिया

: सौ. सुनंदा एस. चोरडिया

❖ संस्थापक ❖

स्व. श्री. कांतिलालजी चोरडिया

❖ वर्ष ५३ वे ❖ अंक १ ला ❖ सप्टेंबर २०२१ ❖ वीर संवत २५४७ ❖ विक्रम संवत २०७७

या अंकात	पान नं.	पान नं.
● जैन जागृति ५३ व्या वर्षात पदार्पण	२३	● कर्म पुण्यानुबंधी कैसे होते है ९९
● करे एक संकल्प भी पापों का निकन्दन	२७	● संगति का प्रभाव १००
● कव्हर तपशील	३३	● हास्य जागृति १०१
● अंतिम महागाथा :		● बाल विभाग : पहिलियाँ खजाना १ १०२
३० : धर्मचक्र प्रवर्तन - २	४३	● माता-पिता के साथ व्यवहार के नियम १०२
● निर्मलता	४८	● ओ भगवान तेरा दास बनूँ मैं १०२
● धर्मों का सार है क्षमा	४९	● गारंटी आप दोबारा जरूर पढोगे १०३
● समण पल्लियों की प्रेरणा	५१	● हृदय से हँसना १०३
● पर्वाधिराज पर्युषण : एक अणु चिन्तन	५२	● जीवन बोध - बुढिया की सुई १०४
● अष्टादश पापस्थानक : मिथ्यात्व शल्य	५५	● साधना का मार्ग १०५
● सुखी जीवन की चाँबिया -		● मीठा बोले १०७
बुद्धि के आठ गुण	६७	● स्थानक में कैसे आए ? १०८
● प्रसन्नता	७१	● क्षमा की शुरुवात है मैत्री ११०
● ऐसी हुई जब गुरुकृपा : खटपट ना कर	७२	● सच्चे सुख के सात कदम १११
● आत्मरमण की भूमिका : ब्रम्हचर्य	७५	● जीवन बोध क्षणिकाएँ ११३
● क्षमा खुद अपने लिए	९१	● व्यसनांचे दुष्परिणाम व उपाय ११५
● जब मेरे बच्चे ने मुझे सिखाया	९४	● पर्युषण : कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष
● क्षमाभाव का दिपक जागृत करे	९५	की ओर ११८
● जागृत विचार	९७	● जैन साहित्य विज्ञान विषयक संदर्भ ११९

● चला बकेट लिस्ट बनवूया	१२१	● पाबळ तीर्थ अध्यक्षपदी श्री. गांधी	१४१
● पर्युषण	१२३	● प्रा. डॉ. संजयजी चोरडिया – निवड	१४३
● अभिनय जब जिंदा हो उठता है	१२४	● श्री. आनंदमलजी छल्लाणी – अध्यक्षपदी	१४३
● लग्न कधी कसे जमणार विचार करा	१२६	● जैन महासंघ का गठन, पुणे	१४४
● नामको हॉस्पिटल, नाशिक	१२७	● सौ. पुष्पा गुंदेचा – अध्यक्षपदी	१४५
● उदार बने	१२८	● सुर्यदत्ता एज्युकेशन फाउंडेशन, पुणे	१४७
● नन्हे नन्हे श्रावक	१२९	● चि. सिध्दांत छाजेड, पुणे	१४९
● आदरणीय टोडरमलजी जैन थे	१३२	● नामको हॉस्पिटल, नाशिक	१५१
● अमेझॉन आणि फिलपकार्डची याचीका फेटाळली	१३३	● जय आनंद ग्रुप, पुणे	१५१
● घरेलू काम करने से बच्चों के ब्रेन का विकास	१३४	● आकांक्षाएँ	१५२
● आनंद विहार धाम : अनकाई	१३५	● श्री. अशोकजी चोरडिया, पुणे	१५३
● धैर्य का कोई विकल्प नहीं	१३६	● न शब्दांचे अर्थ	१५७
● श्री प्रीतिसुधाजी म.सा. – शॉट फिल्म	१३९	● जनगणना होणार कधी ?	१५९
● आनंदऋषिजी मेडिकल सेंटर, पुणे	१४०	● भारत सरकार जणगणना २०२१ – जैन बांधव जागृति अभियान	१६१
		● विविध धार्मिक, सामाजिक बातम्या	

जैन जागृति मासिकाचे वर्गणी दर ● एका वर्षात तीन मोठ्या अंकासहित

पंचवार्षिक रु. २२००

त्रिवार्षिक रु. १३५०

वार्षिक रु. ५००

या अंकाची किंमत ५० रुपये.

● [www.jainjagruti.in](http://www.jainjagruti.in)

● [www.facebook.com/jainjagrutimagazine](https://www.facebook.com/jainjagrutimagazine)

जैन जागृति वर्गणी व जाहिरात – रोख/ड्राफ्ट/AT PAR चेक/पुणे चेकने/RTGS/SBI Online/ Google Pay/Jain Jagruti Website इत्यादी द्वारा पाठवावी

**BANK ACCOUNT DETAILS - A/C Name : JAIN JAGRUTI**

**Bank : STATE BANK OF INDIA**

**Branch : Market Yard, Pune 37.**

**Current A/c No. : 10521020146**

**IFS Code : SBIN0006117**

'जैन जागृति' हे मासिक मालक, मुद्रक व प्रकाशक एस. के. चोरडिया यांनी प्रकाश ऑफसेट, शॉप नं. १२-१३, पर्वती टॉवर्स, पुणे - ४११००९ येथे छापून ६२ बी, ऋतुराज सोसायटी, पुणे-सातारा रोड, पुणे - ४११ ०३७ येथे प्रसिध्द केले. संपादक - एस. के. चोरडिया

"Jain Jagruti" monthly magazine is owned, printed & published by S. K. Chordia, Printed at Prakash Offset, Shop No. 12-13, Parvati Towers, Pune 411009. Published at 62-B, Raturaj Society, Pune - Satara Road, Pune - 411 037. Editor - S. K. Chordia

टिप : या अंकात प्रसिध्द झालेल्या मताशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही. जैन जागृति संबंधित कोणत्याही कायदेशीर कारवाईसाठी पुणे न्यायलय क्षेत्र ग्राह्य धरले जाईल.

टिप : जैन जागृति अंकात प्रकाशित लेख, बातम्या, जाहिरातीचे सर्वाधिकार सुरक्षित आहेत.



# जैन जागृति

## ५३ व्या वर्षात पदार्पण...



जैन जागृतिचे संस्थापक  
स्व. श्री. कांतिलालजी फुलचंदजी चोरडिया



संपादक व प्रकाशक  
संजय चोरडिया



सौ. सुनंदा चोरडिया

सप्टेंबर २०२१ - पर्युषण अंका बरोबर गेली ५२ वर्षे ध्येयनिष्ठ, व्यासंगी आणि विवेकी पत्रकारितेची कास धरून समाजोन्नतीचा वसा घेतलेले “जैन जागृति” ५३ व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे.

वीतराग प्रभू व गुरु भगवंताचे आशिर्वाद, वर्गणीदार, जाहिरातदार, लेखक, पत्रप्रचारक, ऑफिस स्टॉफ, प्रिंटिंग प्रेस, बायंडर, पोस्ट ऑफीस आणि हितचिंतक यांच्या सहयोगाने व सहकार्यां मुळेच

जैन जागृतिने ५२ वर्षे आपली यशस्वी वाटचाल पूर्ण केली आहे. या सर्वांचे खूप खूप आभार. धन्यवाद !

पुणे शहरातून गेली ५२ वर्षे दरमहा नियमितपणे प्रकाशित होणारे ‘जैन जागृति’ मासिकाची सुरुवात १५ ऑगस्ट १९६९ रोजी स्व. श्री. कांतिलालजी चोरडिया यांनी केली. त्याकाळी मासिके व वर्तमान पत्रामधून जैन समाजाची फार थोडी माहिती प्रसिद्ध होत होती. त्यातही जैन धर्माबद्दल, समाजाबद्दल चूकीची माहिती येत असे. सर्वांना जैन धर्माची खरी ओळख व्हावी, जैन इतिहास, जैन कथा साहित्य, दीपावली जैन विधी, जैन तीर्थक्षेत्र इ. माहिती सर्वांना व्हावी या उद्देशाने ‘जैन जागृति’ मासिक सुरु केले.

श्री. कांतिलालजी यांच्या निधनानंतर गेल्या २२ वर्षांपासून ‘जैन जागृति’ मासिकाची धुरा संजय चोरडिया व सौ. सुनंदा चोरडिया सांभाळत आहे. ‘जैन जागृति’चा मुळ गाभा तसाच ठेवून, त्यात नवीन विचाराची, आधुनिकतेची भर घालून मासिक प्रकाशनात उच्च शिखर गाठले आहे.

धर्म, सुसंस्कार व सदाचाराला  
प्रोत्साहन देणारे साहित्य

जैन जागृति मासिकात दरमहा धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कौटुंबिक इ. सर्व स्पर्शी लेख प्रसिद्ध होतात. यातून सुसंस्कार व सदाचार यांना प्रोत्साहन देवून समाजाचे नैतिक स्तर वाढवण्याचे कार्य केले जात आहे.

जैन समाजात अनेक मासिके, साप्ताहिके प्रसिद्ध होतात. या पैकी काही मासिकात, साप्ताहिके मध्ये फक्त बातम्या प्रसिद्ध केल्या जातात. त्यात धार्मिकता दिसत नाही. काही मासिके, साप्ताहिके एक संस्था

किंवा एक संप्रदाय पुरते मर्यादीत आहेत. सर्व जैन समाजाला त्यांच्यात स्थान मिळत नाही.

जैन जागृति दरमहा धर्म, सुसंस्कार व सदाचाराला प्रोत्साहन देणारे अनेक लेखा बरोबर समाजातील विविध बातम्यांना योग्य स्थान दिले जाते.

### एक संप्रदाय, एक संस्थे पुरते मर्यादित नाही मासिकात सर्वांना स्थान

जैन जागृति एक संप्रदाय किंवा एक संस्था पुरते मर्यादित नाही. समाजातील सर्व संप्रदाय, उप संप्रदाय यांना समान व्यासपीठ दिले जाते. जैन जागृति सर्व संप्रदायाचे आचार्य, साधु-साध्वी यांचे लेख व बातम्या प्रसिध्द केल्या जातात. तसेच समाजात कार्यरत सर्व संस्थांच्या बातम्या यांना योग्य स्थान दिले जाते. जैन समाजातील महत्त्वाच्या घडामोडी जैन जागृति मुळे समाजाला समजतात.

### धर्म जागृति व जैनत्वाचा अभिमान

जीवनात सुख, शांती आणि समाधान देणारे वाड्मय प्रत्येक अंकात असते. या सर्व कारणांनी हे मासिक सर्व समाजाला आपलेसे वाटते. जैन इतिहास, जैनांची थोर परंपरा, कथा साहित्य, धार्मिक व सामाजिक कार्याची माहिती समाज बांधवां पर्यंत पोहोचवणे व जैन बांधवात धर्म जागृति, जैनत्वाचा अभिमान निर्माण करणे हे कार्य जैन जागृति मासिक यशस्वीपणे गत ५२ वर्ष करत आहे.

### भारत सरकार जनगणना धर्माच्या कॉलममध्ये जैन लिहा

भारत सरकार दर दहा वर्षांनी जनगणना करते. सन २०२१ मध्ये जनगणना होणार आहे. कोवीड मुळे जनगणना करण्यास उशीर झाला आहे. भारत सरकार जनगणनेत जैन धर्मियांची लोकसंख्या फार कमी येत आहे. सन २०११ साली जैनांची फक्त ४५ लाख लोकसंख्या आली आहे. जैन बांधवांना या दृष्टीने

जागृत करण्यासाठी जैन जागृतिच्या अंकात लेख, बातम्या, निवेदन प्रसिध्द केले आहे. धर्माच्या कॉलम मध्ये जैन लिहा याचे निवेदन दरमहा अनेक वर्षांपासून अंकात दिले जाते.

“भारत सरकार जनगणना २०२१ – जैन बांधव जागृति अभियान” एक पानी निवेदन जानेवारी २०२१ अंकापासून दरमहा दिले जात आहे व हे निवेदन प्रसिध्द करण्यासाठी विविध मासिक, वर्तमानपत्रे यांना पाठवले आहे. या सप्टेंबर २०२१ अंकात पण हे निवेदन पान नं. १६१ वर दिले आहे.

### जैन धर्माला अल्पसंख्याक दर्जा ....

जैन धर्म हा स्वतंत्र व प्राचीन धर्म असून तो कोणत्याही धर्माची शाखा उपशाखा नाही. जैन धर्माला केंद्रात व राज्यात धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा यासाठी जैन जागृति मासिकात या संदर्भात सन १९९५ पासून या विषयावर अनेक लेख, मुलाखती, बातम्या दिल्या. महाराष्ट्रात या संदर्भात पहिला लेख जैन जागृति मासिकात आला. हा विषय जास्तीत जास्त जैन बांधवां पर्यंत पोहोचवला. समाजात या संदर्भात जागृति निर्माण केली.

केंद्र सरकार व राज्य सरकारने जैन धर्माला अल्पसंख्याक दर्जा दिला आहे. हा दर्जा मिळाल्याने बांधवांना, समाजातील संस्थाना अनेक फायदे मिळाले आहे. या संदर्भात वेळोवेळी लेख, निवेदन दिले आहेत.

### जैन विधीचा प्रचार

जैन बांधवांनी दीपावली पूजा, लग्न, इ. विधी जैन धर्मा प्रमाणे कराव्या या संदर्भात लेख, बातम्या दिल्या. जैन जागृति मध्ये दीपावली पूजनाची विधी व दीपावली पूजनाचे मुहूर्त दरवर्षी दिली जाते. आज भारतात व परदेशात जास्तीत जास्त जैन समाज जैन जागृति मासिक समोर ठेवून दीपावली पूजा करतात.

## ५२ व्या वर्षात १४१६ पाने प्रकाशित

जैन जागृति मासिकाने ५२ व्या वर्षाच्या (सप्टेंबर २०२० ते ऑगस्ट २०२१ - ११ अंकात) काळात १४१६ पानांचा मजकूर प्रकाशित केला आहे.

कोवीडच्या साथीमुळे अनेक व्यवसायांवर परिणाम झाले आहेत. प्रकाशन व्यवसायात याचे पडसात उमटले आहे. यामुळे काही मासिके बंद झाली तर काही मासिके अनियमित प्रकाशित होत आहेत. या अस्थिर काळातही जैन जागृति नियमित प्रकाशित झाला आहे.

[www.jainjagruti.in](http://www.jainjagruti.in)

जैन जागृति मासिकाची [www.jainjagruti.in](http://www.jainjagruti.in) ही वेबसाईट अल्पकाळात लोकप्रिय झाली आहे. या वेबसाईटवर जैन जागृति संबंधी सर्व माहिती दिलेली आहे. अल्पकाळात खुप लोकांनी वेबसाईटला भेट दिली आहे. या वेबसाईट द्वारे अनेक समाजबांधव ऑनलाईन जैन जागृति वर्गणी व जाहिरातचे पेमेंट भरत आहेत.

## जाहिरातदारांचे सहकार्य

जैन जागृति गेली ५२ वर्षे मासिक प्रकाशन द्वारे समाजाची जी अनमोल सेवा करीत आहे, त्याला आमच्या जाहिरातदारांचे मोलाचे सहकार्य मिळत आहे. जैन जागृति प्रकाशित होणारे चांगले व वाचनीय साहित्य, नियमितपणा, संप्रदाय सद्भाव, संपूर्ण भारतात प्रचंड वर्गणीदार व जाहिरातीचे माफक दर या जैन जागृतिच्या वैशिष्ट्यांमुळेच जैन जागृति मासिकाला शहर, तालुका, अगदी लहान गावातील समाज बांधवांनी जाहिरातीचे सहकार्य दिले आहे.

जास्तीत जास्त शहरे, तालुका, लहान गावातील जैन समाजापर्यंत पोहचण्यासाठी जैन जागृति सर्वांत उत्तम माध्यम आहे.

काही व्यापारी, उद्योजक, समाज बांधव अनेक वर्ष सातत्याने जैन जागृति मासिकात स्वतः होवून जाहिरात देत आहेत. जाहिरातदारांच्या सहकार्यामुळेच जैन जागृति मासिक दरमहा नियमित प्रकाशित होत आहे व त्यामुळे मासिकाद्वारे धर्म जागृति, समाज जागृतिचे कार्य गत ५२ वर्ष सातत्याने होत आहेत सर्व जाहिरातदारांचे खुप खुप आभार धन्यवाद !

## Online वर्गणी / जाहिरात पाठवा

जैन जागृति मासिक जास्तीत जास्त समाज बांधवां पर्यंत पोहचण्यासाठी जैन जागृतिने विविध शहर, गांवात ३५ प्रतिनिधींना नेमले आहेत. या सर्वांमुळे जैन जागृति मासिक महाराष्ट्र व भारतात हजारो घरात पोहचला आहे.

कोवीडच्या साथीमुळे प्रतिनिधीला वर्गणी व जाहिरात साठी ग्राहकांना भेटण्याच्या मर्यादा आल्या आहेत. सर्व ग्राहकांपर्यंत पोहचता येत नाही. वर्गणीदारांनी Online वर्गणी व जाहिरात पाठवून सहकार्य करावे.

वीतरागवाणी, गुरुवाणी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवण्याचे “भाग्य” चोरडिया परिवाराला मिळाले. आम्ही फार भाग्यवान आहोत.

या प्रदीर्घ कालखंडात काळानुसार आम्ही बदललो. वाचकांशी आमचे असलेले नाते अधिकाधिक दृढ झाले. हजारो वाचक आणि समाज बांधवांच्या आपुलकीच्या भावना यामुळेच आमची पुढील वाटचाल अधिक सुखकर होणार आहे.

गत वर्षात जैन जागृति मासिकाद्वारे कळत नकळत कोणाची मने दुखावली असल्यास जैन जागृति, चोरडिया परिवार आपली हार्दिक क्षमायाचना मागत आहे.



# करे एक संकल्प भी, पापों का निकन्दन

प्रवचनकार : परम श्रद्धेय आचार्यप्रवर श्री हीराचन्द्रजी म.सा.

संसार के जीव-मात्र पर अनन्त - अनन्त करुणा कर आत्मज्ञान की वर्षा करने वाले अरिहंत भगवन्त तथा कलियुग में उनके प्रतिनिधि बनकर वीतराग वाणी की वाचना करने वाले संत भगवन्तों के चरणों में कोटि-कोटि वंदन !

## श्रवण के साथ मनन एवं आचरण भी हो

अनुभवियों का कथन है - खाने से ताकत नहीं आती, ताकत आती है खा कर पचाने से। बढ़िया-से-बढ़िया खा कर भी यदि पाचन सही नहीं तो ... ? श्रेष्ठ और शक्तिशाली पदार्थ खाएँ हैं, लेकिन पाचन ठीक नहीं तो व्यक्ति कमजोर होता जाता है। पचता नहीं तो या तो वमन होगा, नहीं तो दस्तें होगी। पाचन ठीक नहीं तो एक बार खाने वाले को पाँच-सात बार जाना पड़ता है। मतलब, खाना उसका सार्थक है जिसका पाचन बराबर है। जैसे खाने के लिए बात है ठीक उसी तरह आप यहाँ जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं उसके लिए भी ग्रहण कितना हो रहा, इसका महत्त्व है।

वीतराग वाणी अनूठी है, बेजोड़ है। वीतराग वाणी का एक-एक वचन जीवन निर्माण करने वाला है, जीवन का उद्धार करने वाला है। आप पर्वाधिराज पर्युषण पर्व पर पूरा अन्तगड सूत्र सुन गए। इस शास्त्र में नब्बे भविजनों ने मोक्ष प्राप्त किया है। आपने कितनी बार अन्तगड सुना है ? सुना तो कई बार है, किन्तु सुनने का सार नहीं निकला। सुनने का सार है - सुनी हुई बात जीवन-व्यवहार में चरितार्थ हो, आचरण में आए। आचरण में नहीं तो कहना होगा आप महज सुनने के लिए सुन रहे हैं। आप खाते हैं तो खाया-पीया पचना चाहिए। इसी तरह आप सुनते हैं तो जो कुछ सुना है वह आचरण में आना चाहिए।

आपने देखा है गाय थोड़ा-थोड़ा दिनभर खाती

है। घास आदि के खाने के पश्चात् गाय अलग जगह बैठकर घंटे-आधे घंटे तक जुगाली करती है। जुगाली करने का मतलब है - गाय का पाचन चलना। गाय घास खाकर दूध देती है। आप-हम वीतराग वाणी को आचरण में उतारें तो कहा जा सकेगा कि हमारा पाचन सही है। आपने पर्युषण पर्व पर बहुत कुछ सुना है। एक-एक विषय का चिंतन करें, समझें, फिर-फिर से याद करें तो कुछ आचरण में आ सकता है।

आपने अन्तगड सूत्र में सुना है - अतिमुक्त कुमार भले ही बच्चा हैं, किन्तु उसमें ज्ञान का प्रकाश जागृत है तो वह अनुभवी माता-पिता को भी कितने सटीक जवाब देता है ? “जिसे मैं जानता हूँ, उसे नहीं जानता।” आपने पूरा वृत्तान्त सुना है। आप जानते भी हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह उक्ति ही नहीं, यथार्थ बात भी है। आप जानते हैं, फिर भी करणी को बदलने को तैयार नहीं। आप जानते हैं - पाप छोड़ने योग्य हैं, पाप छोड़ने चाहिए। पाप छूटते नहीं... तो फिर सुना हुआ और समझा हुआ किस काम का ? धर्माचरण करना चाहिए, धर्म करना अच्छा है किन्तु कहने मात्र से धर्म अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। धर्म का आचरण भी करना होगा।

## पाप की गंदगी : गंदगी क्यों नहीं लगती ?

कई भव्य जीवों ने बचपन में एक बार सुना और वैरागी बन गए। वे वैरागी ही नहीं बने, यथाख्यात चारित्र का पालन कर मोक्ष चले गए। नादान बच्चा था, तब गंदगी क्या होती है, पता नहीं लगा, पर जैसे ही उसे गंदगी का ज्ञान हो गया तो फिर वह गंदगी से खेलना तो दूर, हाथ तक नहीं लगाता। मजबूरी में कभी गंदगी लग जाय तो वह तुरंत सफाई करता है। क्या आप पाप लगने पर सफाई करते हैं ? कई तो ऐसे हैं जिनसे पाप



अनजान में लगता है, लेकिन जानबूझ कर पाप करने वाले भी बहुत हैं। आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमलजी महाराज कहा करते थे कि 'अंधा वही नहीं है जिसके चमड़े की आँख नहीं। अंधा वह है जो दोष ढँकता है। समझदार गंदगी को गंदगी मानता है, गंदगी से दूर रहता है और कभी गंदगी लग भी जाय तो लगने के साथ सफाई करता है। एक वकील साहब कोर्ट जा रहे थे। चलते-चलते उनके कोट पर गंदगी लग गई तो वे पहले घर जाते हैं, कोट बदलते हैं फिर कोर्ट जाते हैं।

आपको पाप की गंदगी कैसी लगती है? इस जन्म के नहीं, जन्म-जन्म के पापों की गंदगी विद्यमान है, पापों की गंदगी मिटानी है तो आलोचना करें, शुद्ध मन से आलोचना करनी होगी। पाप, जानते हुए हो सकता है, अनजाने में भी होता है। पाप गंदा है। गंदा है तो साफ करना पड़ेगा। मैं उसी बात को कहने जा रहा हूँ, अतिमुक्त कुमार की उम्र भले ही छोटी है, किन्तु पाप को सुना, समझा और पाप धोने के लिए आचारण किया। ज्ञान का मतलब है - ज्ञान को आचरण में उतारें।

### श्रद्धा जीत गई

सुदर्शन सेठ की श्रद्धा जगी। जिसका जिसके प्रति श्रद्धा या आदर का भाव है वह उसके निकट रहना चाहेगा। सेठ सुदर्शन को भगवान के पधारने पर दूरी बर्दास्त नहीं हुई। माता-पिता कह रहे हैं, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, घट-घट की बात जानते हैं, इसलिए तुम यहीं से वंदन कर लो, भगवान करुणावान है, तुम्हारी वंदना स्वीकार कर लेंगे। सुदर्शन का जवाब था - भगवान सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, पर मैं तो प्रत्यक्ष में तभी वंदन-नमन कर सकता हूँ जबकि मैं अपनी आँखों से भगवान को देखूँ। अर्जुन माली के उपद्रव के सामने श्रद्धा जीत गई।

हर जगह दो प्रकार के प्राणी होते हैं। कुछ मेघ की तरह गर्जते हैं पर बरसते नहीं। कुछ बरसते हुए भी गर्जते नहीं। कुछ हैं जो कभी धर्मस्थान में आकर

सामायिक कर लें, तो कहने वाले कह जाते हैं - मैं जाणूं थांरी सामायिक कैसी है? आज अठे कीकर ? सामायिक-संवर करने वालों की श्रद्धा कमजोर करने वाले बहुत हैं, श्रद्धा जगाने वाले, प्रेरणा करने वाले विरले ही होते हैं।

सेठ सुदर्शन की श्रद्धा दिखाने की नहीं थी, लेकिन वह भगवान के प्रति अन्तर्मन से आस्थावान था। भगवान के दर्शन को जाने लगा तो लोगों ने तो कहा ही, वह स्वयं भी जानता था कि यह अर्जुन माली के शरीर में रहे यक्ष का उपद्रव है। मौत सामने है, किन्तु मौत को गौण करके सुदर्शन आगे बढ़ता है। भगवान के प्रति अटूट आस्था तो थी ही, सत्यमेव जयते अर्थात् सांच को आंच नहीं, इस पर भी उसे श्रद्धा थी। सेठ सुदर्शन श्रद्धावान था, धर्मी था। क्या आपकी भी वैसी श्रद्धा है?

### धर्म का नाटक : भटकाव

आज धर्म करने का नाटक करने वाले बहुत हैं और जो नाटक करते हैं वे भटकते हैं, रुलते हैं। वे जीवन-निर्माण के लिए नहीं, आत्मोद्धार के लिए नहीं, किन्तु दूसरों को दिखाने के लिए धर्म करने का नाटक करते हैं। एक वैरागी को देखकर बूढ़े आदमी ने कहा - "नालायक ! तुझे वैराग्य कैसे आया ? मैं साठ साल से प्रवचन सुन रहा हूँ, किन्तु मुझे वैराग्य नहीं आया तो तुम्हें कैसे आ गया ?" होता है, जिनके मन में पाप होगा वे खुद धर्म नहीं करते और जो धर्म करने वाले हैं उन्हें विपरीत समझा कर श्रद्धाच्युत करते हैं। लेकिन जिनके जीवन में धर्म रमा होता है, वे चारित्र-मार्ग में चरण ही नहीं बढ़ाते, अपितु सिद्धि मिलते हैं।

### शरीर के प्रति ममता छोड़े

अन्तगड के माध्यम से आप सुन चुके कि कैसे नब्बे भविजनों ने मोक्ष प्राप्त किया ? आप चारित्र ले सकें तो श्रेष्ठ है, पर यदि चारित्र न भी ले सकें तो कम-से-कम अपना चरित्र ऊँचा रखें। अणुरूप से सही चारित्र की शुरुआत तो करें। चारित्र की बात आप सुन

चुके। तप की क्या कहूँ ? आज तप करने वाले हैं, तप करते भी हैं, फिर भी शरीर की सहूलियत से तप करने वाले ज्यादा हैं। थोड़ीसी विपरीतता आने पर तप को गौण कर जाते हैं। तप करने वाले वे चाहे सामान्यजन हैं या विशिष्ट। राज महलों में रहने वाले जिनके खाने में छप्पन भोग आते हैं, वे जैसा चाहे, खाना बनवा सकते हैं, खा सकते हैं, किन्तु वे भी जब तप-साधना में लगते हैं तो रत्नावली, कनकावली और वर्धमान आयम्बिल तप कर जाते हैं। उपवास का पारणा आयम्बिल से और आयम्बिल के पारणे में उपवास। शरीर की ममता उतरती है तो तप होता है। आज आप गृहस्थ तप करते हैं तो पारणे में मनचाहे आयटम तैयार करवाते हैं। पर साधक साधु हैं जो पारणे में मिल जाय उससे संतुष्टि कर लेते हैं। मिल जाय उसको भगवान का प्रसाद मानकर पारणा कर लेते हैं। मैं आपको उड़द के बाकले से या खट्टी राबड़ी से पारणा करने की नहीं कहता, पर इतना जरूर कहता हूँ कि जो मिल जाय उसे खाकर पारणा कर लेना। आज अधिकतर भाई-बहिन तप में हैं। यहाँ पारणा कराने वाले सब अपने हैं। सब प्रेम वाले हैं, फिर क्यों विचार करते हैं ? जो तप को लेकर विचार करते हैं उनकी लड़ाई अन्य से नहीं, आसक्ति से है। आप आसक्ति का त्याग करें। रसना पर विजय मिलाने की जरूरत है। पर्युषण में आपने तप की कई कई बातें सुन ली। ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप के अलावा आपने दान का माहात्म्य सुना, संयम के विषय में सुना। आपने गजसुकुमाल का उदाहरण सुना-खोपड़ी खिचड़ी की तरह सीझ रही है, ध्यानस्थ खड़े हैं। उनके चित्त में है कि कहीं खीरा न गिर जाय, जीव विराधना न हो जाय। आपके समक्ष एक वह उदाहरण तो दूसरा उदाहरण मैं आपके लिए ही कहूँ। आप चार लोगस्स या आठ अथवा बीस लोगस्स के ध्यान में हैं। ध्यान में मच्छर आ जाय तो ... ? मच्छर, मक्खी, बिच्छू आ जाय तो क्या ध्यान में विघ्न तो नहीं आ जाएगा ? मक्खी मच्छर से ध्यान भंग हो सकता है, बिच्छू या सांप आ जाय तो

कहना ही क्या ?

कष्ट सहना कब सरल होता है ? जब शरीर की आसक्ति नहीं रहे तो कष्ट सहन किए जा सकते हैं, वरना सामान्य मच्छर से आदमी विचलित हो जाता है। मेरा कहना है कि आपने जिस प्रतिज्ञा को लिया है, उसी प्रतिज्ञा को उसी रूप में पालने की कोशिश करें। धर्म जबरदस्ती से नहीं पाला जाता वह तो मन से पाला जाता है। धर्म के पालने में यदि पाप के प्रति ग्लानि हो जाय तो धर्माचरण में दिक्कत नहीं आती।

### दूसरों के लिए पाप न करें

आपने संगम के बारे में सुना, आत्मशुद्धि की बात भी सुनी है। हाँ, एक बात और है, पाप किया तो उसका फल भोगना पड़ता है। कभी अन्य के कारण भी फल भोगना पड़ जाता है। सबको मारने वाला अर्जुन माली नहीं था। वह तो पत्नी के साथ व्यभिचार देखकर छह पुरुषों को और स्त्री को मारने को तैयार हुआ। आगे जितनी भी हत्याएँ हुईं वे यक्ष के कारण हुईं। किया भले यक्ष ने, परन्तु भोगना तो अर्जुन को पड़ा। मैं आपके लिए ही नहीं, अपने लिए भी कहूँ। कभी-कभी व्यक्ति दूसरों के लिए पाप करता है। कभी पति के मोह में, कभी पत्नी के मोह में, कभी परिवार के मोह में पाप किए जाते हैं, किन्तु पाप जब उदय में आते हैं तो भोगना पाप करने वाले को पड़ता है।

पाप कराने वाला मोह है। जैसे ही आपकी दृष्टि में बदलाव आ जाएगा, उस दिन दूसरों के कहने पर भी पाप नहीं करेंगे। पति-पत्नी या परिवार की क्या कहूँ महाराज के चेले हैं, चेलियाँ हैं। चेले-चेलियों का मोह है तो पाप-कर्म हो सकता है और जब यह विश्वास हो जाय कि कोई किसी का नहीं तो फिर पाप नहीं होंगे। साधु भी ममता में आएगा तो पाप कर सकता है। साधु अभी छद्मस्थ हैं, वीतरागी नहीं। वीतरागी नहीं आती तब तक दोष किसी से भी लगते हैं, लगेंगे। दूसरों को मोक्ष पहुँचाने वाला साधु स्वयं असुर देव बन सकता है।



## हृदय से शुद्धि : सम्यक्त्व की पहचान

धर्म का नाटक करना अलग बात है, हृदय से धर्म करना अलग है। जब तक हम बाहर से शुद्धि नहीं करेंगे हृदय से शुद्धि होने वाली नहीं। वर्ष भर तक जिसके साथ वैरभाव रहा, दोष किए, उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो सम्यक्त्व नहीं हो सकता।

आप-हम, जिनसे भी पाप हुए, आलोचना नहीं की जा रही है तो हममें सम्यक्त्व नहीं है यह आगम का वचन है। साधु के लिए, संज्वलन कषाय के लिए दृष्टान्त पानी की लकीर का दिया जा रहा है। एक है जिसे इधर गुस्सा आया, उधर साफ। जैसे ही क्रोध का प्रसंग बना उसी समय क्षमायाचना कर ली। अगला खमत-खामणा करे या नहीं, मैं करता हूँ यह भाव हर एक में रहना चाहिए। आज क्षमा का दिवस है। आपने क्षमा के विषय में संतों से सुना, सतियों से सुना। आपने आज ही सुना है, ऐसी बात नहीं। आप कई सालों से सुन रहे हैं।

### पाप का प्रतिकार आवश्यक

मैंने आचार्य भगवंत (पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज) से एक दृष्टान्त सुना। एक घर में कुत्ता आ गया। कुत्ते को कोई यह नहीं बोलता भाई साहब! आप अठे कीकर पधारिया? कुत्ते के आने पर कोई यह नहीं कहता कि आप बाहर पधारें। जब तक कुत्ते को दुत्कारोगे नहीं, डाँटोगे नहीं, डंडा नहीं दिखाओगे तब तक वह घर से बाहर नहीं जाता। पाप भी इसी तरह का है। आप कहते हैं कि क्या करें अभी तो हम घर में बैठे हैं, इसलिए पाप करना पड़ता है। पाप को निकालना है तो डंडा हाथ में लेना पड़ेगा। आज पाप-कर्म क्यों बढ़ रहे हैं? कोई दो-चार साल चाय पी ले तो चाय छोड़ना भारी हो जाता है। गुटखा खाने वाला गुटखा नहीं छोड़ सकता। जो वर्षों से पाप कर रहा है, वे जल्दी छूटने वाले नहीं हैं। पाप छोड़ने के लिए एक कहावत है - 'हाथ धोकर पीछे पड़ना'। जो भी पाप छोड़ना चाहता है वह हाथ धोकर पीछे पड़ जाय, पाप छूट जाएँगे। पाप अनन्त काल से हो रहे हैं, अनन्त जन्म से लगे हुए हैं।

पाप चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो अथवा क्रोध-कषाय से और विषय-वासना से पाप हो रहे हों। पाप पर नियन्त्रण नहीं करेंगे तब तक आप धर्माचरण के अधिकारी नहीं हो सकते।

### पर्युषण में पाप-त्याग का एक संकल्प लें

पर्युषण पर्व सबके लिए है। यह पर्व अभय देने वाला है। संवत्सरी पर्व महापर्व है। गुरुदेव फरमाते थे - आज के दिन कई घरों में चूल्हे तक नहीं जलते। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या रोगी, क्या निरोगी आज के दिन सब उपवास करते हैं। आज का दिन पाप छोड़ने का दिन है। सब जीवों को अभय देने का दिन है।

आप यदि संवत्सरी पर्व पर कोई एक संकल्प करते रहते तो आज आप जितने वर्ष के हैं उतने संकल्प के कारण कितने पाप छूट जाते? मान लीजिए-आप साठ वर्ष के हैं, यदि एक संवत्सरी पर एक पाप छोड़ते तो आज कितने पाप छूट जाते?

आप सुनो टण भर, विश्वास करो मण भर और उसमें कण भर भी आचरण करें तो भी पाप से काफी हल्के हो सकते हैं।

एक वचन जो सतगुरु केरो,

जे पेसे (बैठे) मन माहिं रे प्राणी ।

नीच गति में वो नहीं जावे,

एम भणे(कहे) जिन राय रे प्राणी ॥

एक मच्छीमार ने निर्णय लिया कि मेरे जाल में आने वाली पहली मछली को नहीं मारूँगा। इस एक नियम से उसका बेड़ा पार हो गया। एक नियम कि पूनम के दिन परनारी का सेवन नहीं करूँगा। इससे भी भव सागर पार हो गया। ऐसे कई-कई उदाहरण कहे जा सकते हैं। मैं उन दृष्टान्तों के बजाय आपसे कहूँगा कि आप भले ही एक नियम लें, पर उसका पालन करें। एक नियम का प्राण-पण करने वाला अपना मनोरथ सिद्ध कर सकता है। आप महाव्रत नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, पर जो नियम आप पाल सकते हैं वह तो ग्रहण करें। मेरी बात कितनी गले उतर रही है, इस

पर आप अपना चिंतन करना और पाप छोड़ने के लिए व्रतनियम जरूर करना है।

### चलना स्वयं को होगा

एक पत्नी पति को खिलाना चाहती है। पति वृद्ध था। पत्नी कह रही है - थाने भावे जेड़ो मैं बनाया देऊँला। पति बोला-म्हारे दांत कोनी, खाऊँ कीकर ? पत्नी ने कहा - मैं चूर कर दे दूँगी। मैं बना कर दे दूँगी, परोस दूँगी, चूरकर दे दूँगी, मुंह में कवा भी दे दूँगी, लेकिन गले मे आप को उतारना पड़ेगा।

वीतराग वाणी सब रास्ते बताने वाली है। गुरु रास्ता बताता है। गुरु नहीं, भगवान भी रास्ता ही बता सकते हैं, चलना तो खुद को ही पड़ेगा। आप एक-एक कदम चलेंगे तो रास्ता पार हो सकता है। धर्म का एकएक नियम अगर जीवन में उतार लिया जाय तो कहना होगा वह आपके लिए संवत्सरी है। करने वाले के लिए रोज संवत्सरी है और नहीं करने वालों के लिए संवत्सरी चाहे जितनी आ जायें, उससे कुछ होने-जाने

वाला नहीं है। हर साल संवत्सरी आती है, हर साल आएगी, जब तक जीवन है यह क्रम चलता रहेगा, पर उसका लाभ तभी है जब एक-एक पाप कम करते जायेंगे। प्रत्येक वर्ष एक-एक नियम करते जायेंगे तो कितने पाप छूट जाएँगे, इसकी जरा कल्पना तो करो।

आज क्षमा का दिन है। मैंने, मेरे संतों ने, महासती वर्ग ने आपको आगम वाणी सुनाने में कभी मीठे वचनों से प्रेरणा की तो कभी कड़वे वचन भी कहने में आए होंगे। मेरे या संत-सतियों के कहने से आपका दिल दुखा हो तो मैं संवत्सरी महापर्व पर मन से क्षमायाचना कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपसे अपेक्षा है कि आप मेरी बात को कुनैन की गोली की तरह समझ कर लेंगे तभी मलेरिया बुखार से मुक्ति हो सकेगी। मैं आज दिल की दीवाली मनाने के लिए इतना ही कहता हूँ कि आप जो भी पाप छोड़ सकते हैं, छोड़े और आत्मा की दीप्ति के लिए संकल्प पूर्वक पापों का त्याग करें, तभी संवत्सरी महापर्व की आराधना सफल हो सकेगी।



## जैन जागृति - दीपावली अंक

भारतात व परदेशात बहुसंख्य जैन परिवारात दीपावली पूजन विधी  
जैन जागृति मासिका वरुन केली जात आहे.

जैन जागृति जाहिरात देऊन जैन समाजाशी संवाद साधा.

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२१ (संयुक्त अंक)

२६ ऑक्टोबरला प्रसिध्द होणाऱ्या दीपावली अंकासाठी ११ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत जाहिरात पाठवा.



आर्ट पेपर वर रंगीत (Colour) जाहिरात		व्हाईट पेपरवर एका रंगात (Black & White) जाहिरात	
पूर्ण पान	रु. ८५००/-*	पूर्ण पान	रु. ४०००/-
१/२ पान	रु. ४६००/-*	१/२ पान	रु. २४००/-
*डिझाईन व पॉझेटिव्ह खर्च वेगळा (रु. ५००)		१/४ पान	रु. १२५०/-
GST - 5% Extra.		१/८ पान	रु. ८००/-

आजच्या स्पर्धेच्या युगात जाहिरात ही अत्यावश्यक बाब झाली आहे. जैन समाजात "जैन जागृति" हे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. आपल्या व्यवसायाची जाहिरात "जैन जागृति" मध्ये द्या. - संपादक


E-mail - [jainjagruti1969@gmail.com](mailto:jainjagruti1969@gmail.com)      [www.jainjagruti.in](http://www.jainjagruti.in)

## कच्छर तपशील - सप्टेंबर २०२१



- ❖ **आनंदऋषिजी मेडिकल सेंटर, पुणे – उद्घाटन**  
आनंदऋषिजी मेडिकल सेंटर, पुणे यांचे उद्घाटन ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी संपन्न झाले. येथे माफक दरात विविध आरोग्य सेवा उपलब्ध आहेत. (बातमी पान नं. १४०).
- ❖ **श्री. अशोकजी चोरडिया, सोलिटियर ग्रुप – पुणे**  
पुणे येथील उद्योजक व सोलिटियर ग्रुपचे चेअरमन श्री. अशोकजी धनराजजी चोरडिया यांच्या तर्फे महाबळेश्वर येथील ग्रामस्थांना अन्नधान्याचे किट व इतर वस्तु वाटप करण्यात आले. (बातमी पान नं. १५३)
- ❖ **नामको हॉस्पिटल, नाशिक**  
नामको हॉस्पिटल नाशिक येथे कॅन्सरच्या गाठीवर अचूक आणि प्रभावी रेडिएशनची क्षमता असलेली फ्लेक्झिड्रॉन एचडीआर ब्रॅकिथेरपी यंत्रणेचे लोकार्पण करण्यात आले. (बातमी पान नं. १५१)

- ❖ **प. पु. प्रितीसुधाजी म.सा. – शॉर्ट फिल्म**  
प.पु. प्रितीसुधाजी म.सा. यांच्या जीवनावर आधारित शॉर्ट फिल्मचे निर्माती पुणे येथील प्रा. सुरेखा कटारिया व डॉ. श्वेता राठोड यांनी केली. महासतीर्जीच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून वडगांव शेरी, पुणे येथे विमोचन करण्यात आले. (बातमी पान नं. १३९)
- ❖ **पाबळ तीर्थ अध्यक्षपदी श्री. प्रकाशजी गांधी**  
पाबळ जैन तीर्थ अध्यक्षपदी पुणे येथील उद्योजक, समाजसेवी श्री. प्रकाशजी हुकुमचंदजी गांधी यांची निवड झाली आहे. (बातमी पान नं. १४१)
- ❖ **सुर्यदत्ता एज्युकेशन फाउंडेशन, पुणे**  
सुर्यदत्ता एज्युकेशन फाउंडेशनच्या वतीने श्री. सुधीरजी मेहता यांना सुर्यभूषण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रा. डॉ. संजयजी चोरडिया यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. (बातमी पान नं. १४७)
- ❖ **सौ. पुष्पा गुंदेचा, पुणे – अध्यक्षपदी**  
लायन्स क्लब, पुणे संस्कृति अध्यक्षपदी सौ. पुष्पा अमृतजी गुंदेचा यांची निवड झाली. (बातमी पान नं. १४५)
- ❖ **चि. सिध्दांत मुकेश छाजेड, पुणे**  
पुणे येथील चि. सिध्दांत मुकेश छाजेड यांनी हाफ आयर्नमन ट्रायलथॉन स्पर्धा पूर्ण केली. (बातमी पान नं. १४९)



**महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त जैन समाजापर्यंत पोहचण्याचा सर्वांत खात्रीशीर, सर्वांत सोपा व सर्वांत स्वस्त मार्ग...**

**जैन जागृति** - ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२१ (संयुक्त अंक) दीपावली अंक जाहिराती साठी संपर्क करा.